




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 330]
No. 330]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2002/आषाढ़ 26, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2002/ASADHA 26, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2002

प्रतिअदायगी/सा.सू.-6/2002

सा.का.नि. 503(अ).— सा.का.नि. 392 (अ.) दिनांक 29 मई, 2002 के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 33/2002-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 29 मई, 2002 में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तरीके से निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है :-

1. अध्याय 42 में, पृष्ठ 34, 35, और 36 पर, क्रम/उपक्रम सं० 42.25, 42.26, 42.27, 42.32 और 42.33 के सामने कॉलम 2 में माल के विवरण में आने वाले शब्दों “चमड़े की सभी वस्तुएँ—” को “चमड़े की अन्य सभी वस्तुएँ—” पढ़ा जाए।
2. अध्याय 64 में, पृष्ठ 54, 55, 57 और 58 पर क्रम/उपक्रम सं० 64.06, 64.10, 64.20, और 64.23 के सामने कॉलम 2 में माल के विवरण में आनेवाले शब्दों “----दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2001-सीमा शुल्क के तहत आयातित ----” को “----दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमा शुल्क के तहत आयातित ----” पढ़ा जाए।
3. अध्याय 73 में, पृष्ठ 64 पर क्रम/उपक्रम सं० 73.16 के सामने कॉलम 3 में प्रतिअदायगी की दर को “0.15 रूपए (मात्र पन्द्रह पैसे) प्रति मीटर” के स्थान पर “0.15 रूपए (मात्र पन्द्रह पैसे) प्रति नग” पढ़ा जाए।

4. अध्याय 73 में, पृष्ठ 66 पर क्रम/उपक्रम सं० 73.30 के सामने कॉलम 3 में प्रतिअदायगी की दर को “ प्रति कि.ग्रा” के स्थान पर “इस्पात अंतर्वस्तु का प्रति कि.ग्रा.” पढ़ा जाए ।
5. अध्याय 74 में, पृष्ठ 66, 67 और 68 पर क्रम/उपक्रम सं० 74.02, 74.03, 74.13 और 74.14 के सामने कॉलम 3 में प्रतिअदायगी की दरों को “ प्रति कि.ग्रा” के स्थान पर “पीतल अंतर्वस्तु का प्रति कि.ग्रा.” पढ़ा जाए ।
6. अध्याय 74 में, पृष्ठ 68 पर क्रम/उपक्रम सं० 74.15 के सामने कॉलम 3 में प्रतिअदायगी की दर को “ प्रति कि.ग्रा” के स्थान पर “ताँबा अंतर्वस्तु का प्रति कि.ग्रा.” पढ़ा जाए ।
7. अध्याय 74 में, पृष्ठ 68 पर क्रम/उपक्रम सं० 74.20 और 74.21 के सामने कॉलम 3 में प्रतिअदायगी की दरों को “ प्रति कि.ग्रा” के स्थान पर “पीतल अंतर्वस्तु का प्रति कि.ग्रा.” पढ़ा जाए ।
8. अध्याय 74 में, पृष्ठ 69 पर क्रम/उपक्रम सं० 74.27, 74.28, और 74.29 के सामने कॉलम 3 में प्रतिअदायगी की दर को “ प्रति कि.ग्रा” के स्थान पर “ताँबा अंतर्वस्तु का प्रति कि.ग्रा.” पढ़ा जाए ।
9. अध्याय 75 में, पृष्ठ 70 पर क्रम/उपक्रम सं० 75.01 के सामने कॉलम 2 में माल का विवरण “निकेल की वस्तुएँ” के स्थान पर “निकेल की वस्तुएँ (जो सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 75.05 से 75.08 के अंतर्गत आती हों)” पढ़ा जाए ।
10. अध्याय 79 में, पृष्ठ 71 पर क्रम/उपक्रम सं० 79.01 के सामने कॉलम 2 में माल का विवरण “जिंक की वस्तुएँ” के स्थान पर “जिंक की वस्तुएँ (जो सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 79.04 से 79.07 के अंतर्गत आती हों)” पढ़ा जाए ।
11. अध्याय 80 में, पृष्ठ 71 पर क्रम/उपक्रम सं० 80.01 के सामने कॉलम 2 में माल का विवरण “टिन की वस्तुएँ” के स्थान पर “टिन की वस्तुएँ (जो सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 80.03 से 80.07 के अंतर्गत आती हों)” पढ़ा जाए ।
12. अध्याय 96 में, पृष्ठ 113 पर क्रम/उपक्रम सं० 96.03 के सामने कॉलम 2 में माल का विवरण “सभी प्रकार के फाउण्टेन पेन, बाल प्वाइंट पेन, फाइबर टिप पेन, कलर पेन, हाइलाइटर पेन, स्केच पेन, रॉलर बॉल पेन, जेल पेन और मेकैनिकल पेन्सिल (जिसमें बॉक्स सहित अथवा रहित गिफ्ट सेट शामिल हैं)” के स्थान पर “सभी प्रकार के फाउण्टेन पेन, बाल प्वाइंट पेन, फाइबर टिप पेन, कलर पेन, हाइलाइटर पेन, स्केच पेन, रॉलर बॉल पेन, जेल पेन, मार्कर पेन और मेकैनिकल पेन्सिल (जिसमें बॉक्स सहित अथवा रहित गिफ्ट सेट शामिल हैं)” पढ़ा जाए ।

[फा. सं. 609/99/2002-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th July, 2002

DRAWBACK/PN-6/2002

G.S.R. 503(E).— In the Notification No.33/2002-Customs(N.T.) dated 29th May, 2002, published in in part-II, Section 3, Sub-section (1) of the Gazette of India (Extraordinary), vide G.S.R. 392(E), dated the 29th May, 2002, the Central Government hereby makes the following corrections therein, in the following manner:-

1. At pages 34, 35 and 36 in Chapter 42, the wordings '**All Leather goods**' appearing in the description of the goods in Column 2 against Serial/Sub-serial Nos 42.25, 42.26, 42.27, 42.32 and 42.33 shall be read as '**All other Leather goods**'.
2. At pages 54, 55, 57 and 58 in Chapter 64, the wordings '**.... imported under Notification No.21/2001-Cus dated 1st March, 2002....**', appearing in the description of the goods in Column 2 against Serial/Sub-serial Nos. 64.06, 64.10, 64.20, and 64.23 shall be read as '**.... imported under Notification No.21/2002-Cus dated 1st March, 2002....**'.
3. In Chapter 73, page 64, the drawback rate in column 3, against Serial/Sub-serial No.73.16 shall be read as '**Re. 0.15 (Paise fifteen only) per piece**' instead of '**Re. 0.15 (Paise fifteen only) per metre**'.
4. In Chapter 73, page 66, the drawback rate in column 3, against Serial/Sub-serial No.73.30 shall be read as '**..... per kg. of steel content**' instead of '**... per kg.**'.
5. In Chapter 74, pages 66, 67, and 68, the drawback rates in column 3, against Serial/Sub-serial Nos. 74.02, 74.03, 74.13, and 74.14 shall be read as '**..... per kg. of brass content**' instead of '**..... per kg.**'.
6. In Chapter 74, page 68, the drawback rate in column 3, against Serial/Sub-serial No. 74.15 shall be read as '**..... per kg. of copper content**' instead of '**..... per kg.**'.
7. In Chapter 74, page 68, the drawback rates in column 3, against Serial/Sub-serial Nos 74.20 and 74.21 shall be read as '**..... per kg. of brass content**' instead of '**..... per kg.**'.
8. In Chapter 74, page 69, the drawback rates in column 3, against Serial/Sub-serial Nos 74.27, 74.28 and 74.29 shall be read as '**..... per kg. of copper content**' instead of '**..... per kg.**'.
9. At page 70, in Chapter 75, the description of the goods in Column 2, against Serial/Sub-serial No. 75.01 shall be read as '**Articles of Nickel (covered by Customs Tariff Headings 75.05 to 75.08)**' instead of '**Articles of Nickel**'.
10. At page 71, in Chapter 79, the description of the goods in Column 2, against Serial/Sub-serial No. 79.01 shall be read as '**Articles of Zinc (covered by Customs Tariff Headings 79.04 to 79.07)**' instead of '**Articles of Zinc**'.

11. At page 71, in Chapter 80, the description of the goods in Column 2, against Serial/Sub-serial No. 80.01 shall be read as **'Articles of Tin (covered by Customs Tariff Headings 80.03 to 80.07)'** instead of **'Articles of Tin'**.
12. At page 113, in Chapter 96, the description of the goods in Column 2, against Serial/Sub-serial No. 96.03 shall be read as **'Fountain pens, ball point pens, fibre tip pens, colour pens, highlighter pens, sketch pens, roller ball pens, gel pens, marker pens, and mechanical pencils, all sorts, (including gift sets with or without box)'** instead of **'Fountain pens, ball point pens, fibre tip pens, colour pens, highlighter pens, sketch pens, roller ball pens, gel pens, and mechanical pencils, all sorts, (including gift sets with or without box)'**.

[F. No. 609/99/2002-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.